



वन उत्पादकता संस्थान, रांची



कम्प्युटर अनुप्रयोग विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

(07.10.2020 से 09.10.2020)

वन उत्पादकता संस्थान, रांची द्वारा मानव संसाधन विकास (HRD) कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून द्वारा प्रायोजित “कंप्यूटरके अनुप्रयोग (Computer Application)” विषय पर तीन दिवसीय (07-10-2020 से 09-10-2020 तक) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आभाषीय मंच (Video Conferencing) के द्वारा किया गया जिसमें वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; वन अनुसंधान कौशल विकास केंद्र, छिंदवाड़ा; शुष्कवन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद; वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट एवं वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर के 25 प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा वन उत्पादकता संस्थान, रांची के प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉ. नितिन कुलकर्णी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। इस अवसर पर डॉ. कुलकर्णी ने अपने उद्घाटनीय सम्भाषण में बताया की कार्यालय की कार्य क्षमता में उतरोत्तर गति प्रदान करने हेतु लगातार नई तकनीकी को अपनाना आज नितांत आवश्यक हो गया है।

उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि वन उत्पादकता संस्थान, कार्यालय में कागज की बढ़ती खपत को कम करते हुए इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून एवं भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के समन्वय से राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा प्रवर्तित e Office कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। ई-ऑफिस उत्पाद का लक्ष्य अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं आंतरिक और अंतर शासकीय कार्य प्रणाली में उपयोग करके शासन को सहयोग प्रदान करना है। वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्रदान करने वाला रहेगा, साथ ही निश्चित रूप से कागज रहित कार्यालय को सुनिश्चित कर पर्यावरण पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करनेवाला सिद्ध होगा।

पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. शम्भुनाथ मिश्रा ने मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेने वाले वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; वन अनुसंधान कौशल विकास केंद्र, छिंदवाड़ा; शुष्कवन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद; वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट एवं वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर एवं वन उत्पादकता संस्थान, रांची के प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया की तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कंप्यूटर के अनुप्रयोग द्वारा कार्यालय स्वचालन, e Office के क्रियान्वयन के लिए परिषद की पहल, Microsoft कार्यालय, ग्राफिक्स उपकरण, नेटवर्किंग, डेटाबेस प्रबंधन, दस्तावेज प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली, सूचना प्रणाली इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित एवं चर्चा की जायेगी।

श्रीमती रूबी कुजूर, वैज्ञानिक, ने कंप्यूटर का आविष्कार एवं उपयोग तथा डाटा वेस प्रबंधन, दस्तावेज प्रबंधन आदि विषय पर बताया। श्री निशार आलम श्री आदर्श कुमार एवं श्री बसंत कुमार के द्वारा नेटवर्किंग (Networking), हार्डवेयर (Hardware) एवं साफ्टवेयर (Software) पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

इस कार्यक्रम के समापन पर विभागाध्यक्ष डॉ. शरद तिवारी ने प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षकों, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी सहयोगियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर संस्थान के समूह समन्वयक अनुसंधान डॉ. योगेश्वर मिश्रा, श्री एस एन वैद्य, मुख्य तकनीकी अधिकारी एवं संस्थान के कर्मचारी गण उपस्थित रहे।



कम्प्युटर अनुप्रयोग विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियाँ